

Regd. Office: GC-24, 1st Floor, Shivaji Enclave

Raja Garden, New Delhi-110027

Works

: Plot No. 393, Sector-57, Phase-I

HSIIDC, Kundli Industrial Estate

Sonepat, Haryana

ISIN: INE835U01019

CIN No. L74899DL1995PLC064005

LEADING MANUFACTURERS AND EXPORTERS OF SOCKS & GLOVES

12th February, 2024

To,
The Listing Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001
(Scrip Code: 540243)

Subject: Intimation to Stock Exchange regarding issuance of Notice of 01st Extra Ordinary General Meeting (01/2023-24) to Shareholders

Dear Sir(s),

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, it is hereby informed that, a Notice to the Shareholders has been published in the 'The Financial Express' and 'Jansatta', under applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by Institute of Company Secretaries of India.

Thanking You,

Yours faithfully, For **NEW LIGHT APPARELS LIMITED**

Sandeep Makkad (Managing Director) Office Add.: GC-29, Basement, Shivaji Enclave Raja Garden, New Delhi-110027 (b) Diluted

Place : Delhi

Sai Industries Limited Regd. Office: 302, 3rd Floor, C-2/4, Community Centre Ashok Vihar, Phase-2, Delhi - 110052 Email Id: saiindustries884@gmail.com, CIN: L74999DL1991PLC045678 Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter ended 31" December 2023 Nine Months ended Year Ended Quarter ended 31.12.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.03.2023 **PARTICULARS** (Unaudited) Unaudited) (Unaudited) (Audited) Total income from operations (0.47)(4.49)(0.78)(5.43)(5.26)Net profit/(loss) for the period (0.28)(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) (0.47)(0.28)(4.49)(0.78)(5.43)(5.26)Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items) (0.47)(0.28)(4.49)(0.78)(5.26)Net profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extra ordinary Items) 296.76 Paid-up Equity Share Capital 296.76 296.76 296.76 296.76 296.76 (461.46) Reserve excluding Revaluation Reserve (460.98)(465.96)(461.46)(460.85)(460.68)Earning Per Share (of Rs.10/- each share) (for continuing and discontinued operation) (a) Basic

Note: 1) The Above is an extract of the detailed format of guarter ended financial results filed with the Stock Exchange under Reg 33 of SEBI (LODR), 2015. The full formats are available on Stock Exchange websites and on Company's website. By Order of the Board FOR SAI INDUSTRIES LIMITED

(0.01)

(0.15)

(0.03)

(0.18)

(0.18)

DIN:09212447

AJAY Date: 09.02.2024 Director

(0.02)



ICIN: L74140DL1991PLC3404071 Regd. Office: 72, Ground Floor, World Trade Center, Babar Road,

Connaught Place, New Delhi-110008, Phone: +91 9810266747, E-mail: imcapitalscompliances@gmail.com Website: www.imcapitals.com

NOTICE FOR THE ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS OF IM+ CAPITALS LIMITED REGARDING THE 01/2023-24 EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) /OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM) AND EVOTING INSTRUCTIONS

NOTICE is hereby given that the 01/2023-24 Extra-Ordinary General Meeting ("EGM")

members of IM+ Capitals Limited ("Company") will be held on Monday, 04th March, 2024 at 03:00 P.M.(IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circulars and Notifications issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA")and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (collectively referred to as "Relevant Circulars"), to transact the businesses as set out in the Notice of the EGM.

Members will be able to attend the EGM through VC / OAVM. Members participating in the EGM through the VC / OAVM facility shall be deemed to be present at EGM and their presence shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. In compliance with the Relevant Circulars, the electronic copies of Notice of the EGM along

with explanatory statement and other documents required to be attached thereto, have been sent only by email on Friday 09th February, 2024 to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s) as on the cut-off date i.e., Friday, 02nd February, 2024.

The Notice and other documents are also made available on the Company's website at www.imcapitals.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and the e-voting website of Linkintime India Private Limited (LIIPL) at

M/s Link Intime India Private Limited, a SEBI registered Registrar and Transfer Agent (RTA) is appointed to provide a platform for convening the meeting through Video Conferencing; to handle and supervise the entire process of holding the meeting through Video Conferencing, e-voting, and processing of data relating to the meeting and voting, etc Further, members can join and participate in the EGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining and manner of participation in the EGM are provided in the Notice. Manner of registering /updating email addresses: a) Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses

can register their email address by sending request to the Company in prescribed Form ISR-1 and other relevant forms by mail to imcapitalscompliances@gmail.com. (Form ISR-1 is available at the website of the Company at www.imcaptals.com) Members holding shares in electronic mode are requested to register /update their email

address with their respective DPs for receiving all communications from the Company

Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the EGM and holding shares as on the cut-off date for e-voting i.e. Friday, 02nd February, 2024, may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice of the EGM, which is available on Company's website www.imcapitals.com and e-voting website of Linkintime India Private Limited (LIIPL) at instavote.linkintime.co.in. Such members may cast their votes using the e-voting instructions, in the manner specified by the Company in the Notice

Instruction for remote e-voting and e-voting during EGM: a) In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the

electronically.

Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standards - 2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the EGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system of Linkintime India Private Limited (LIIPL) on the dates mentioned herein below ("remote e-voting").

The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the EGM ("Insta Poll") and members attending the EGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the EGM through Insta Poll. The Company has engaged the services of Linkintime India Private Limited (LIIPL) as

the agency to provide e-voting facility. Information and instructions including details of user id and password relating to

e-voting have been sent to the members through e-mail. The same login credentials should be used for attending the EGM through VC / OAVM.

The manner of remote e-voting and voting by Insta Poll by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the EGM and is also available on the

website of the Company: www.imcapitals.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of Linkintime India Private Limited (LIIPL) at instavote.linkintime.co.in. The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting:- 09:00 A.M. (IST) on 01st March, 2024 End of remote e-voting :-05:00 P.M. (IST) on 03rd March, 2024

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by Linkintime India Private Limited (LIIPL) upon expiry of the aforesaid period.

The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the EGM. The voting rights of the members shall be in proportion to their shares of the paid-up share capital of the Company as on cut-off date i.e., Friday 02nd February, 2024.

In case any query or grievance pertaining to remote e-voting before the EGM, e-voting during the EGM and joining the EGM through VC/OAVM, Members may refer the FAQs and Instavote e-voting manual available at Instavote-Linkintime or write an e-mail to enotices@linkintime.co.in or call on 022-49186000.

Ms. Chetna Bhola (FCS A41283) Associate Partner of M/s. Chetna Bhola & Associates Company Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the process for remote e-Voting and e-Voting at the EGM in a fair and transparent manner. The results of e-voting along with scrutinizer's report will be uploaded on the company's website www.imcapitals.com and will be communicated to BSE Limited, where securities of the

Members are requested to read carefully all the Notes set out in the Notice of the EGM and in particular, instructions for joining the EGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting (Insta Poll) at the EGM. For IM+ Capitals Limited,

Date: 09.02.2024

Place: New Delhi

Date: 09/02/2024 Sakshi Goel Place: Jodhpur Company Secretary & Compliance Officer

Form No. INC-26 M/s. CARNEFRESH EXPORTS PRIVATE LIMITED Pursuant to Rule 30 the Companies (Incorporation Rules, 20141

Advertisement to be published in the newspape

for change of registered office of the Company

from one state to another

Before the Central Government

Regional Director, Northern Region

B-2 wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO

Complex, New Delhi-110003

In the matter of sub-section (4) of Section

13 of the Companies

Act, 2013 and clause (a) of sub rule (5) of

Rule 30 of the Companies (Incorporation)

Rules, 2014

the matter of Storage Networking Industry

Association of India having its registered office

No 24/4818, 1st Floor, Prahlad Street Ansari Road

Notice is hereby given to the General Public tha

the Company proposes to make application to the

Central Government under Section 13 of th

Companies Act, 2013 seeking confirmation of

alteration of the Memorandum of Association of th

Company in terms of the Special Resolution passed

at the Extra-ordinary General Meeting held or

Saturday, the 10th day of February, 2024 to enable

the Company to change its registered office from

the "National Capital Territory of Delhi" to the "State

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office o

the Company may deliver either on the MCA - 2

portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or sent

by registered post of his/ her objections supported

by an affidavit stating the nature of his/ her interes

and grounds of opposition to the Regional Director Northern Region, at -2 wing, 2nd Floor

ParvavaranBhawan, CGO Complex, New Delhi

110003 within fourteen days from the date of

publication of this notice with a copy of the applican

company at its registered office at the address

Storage Networking Industry Association of India Regd. Office:No 24/4818, 1st Floor, Prahlad Stree

Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002

ANUPAM KESHAV BHIDE

DIN: 00291269

For and on behalf of the Applicant,

mentioned below

Date: 10.02.2024

Place: New Delhi

Ballabhgarh, Faridabad-121004

Daryaganj, New Delhi 110002

Regd. Off.: B-910, Ithum Tower Plot No. A-40, Sector-62, Gautam Buddha Nagar, Noida, Uttar Pradesh, India, 201301 CIN: U15549UP2022PTC159006 Email id: alduaoverseas@gmail.com

Before the Hon'ble Regional Director, Northern Region, New Delhi, Ministry of Corporate Affairs

In the matter of Section 13 of Companies Act, 2013

In the matter of M/s. Carnefresh Exports Private Limited having its registered

office at B-910, Ithum Tower Plot No.A-40, Sector-62, Gautam Buddha Nagar, Noida, Uttar Pradesh, India, 201301Applicant Company

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make an application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra - Ordinary General Meeting held on 06.02.2024 to enable the company to change its Registered Office from "State of Uttar Pradesh" to the "State of Delhi"

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing an investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, 2rd Floor, CGO Complex, New Delhi- 110003, within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office.

By order of the Board

M/s. CARNEFRESH EXPORTS PRIVATE LIMITED Mohd Shakeel Date: 06/02/2024 Director DIN: 08879225 Place: Noida

Reliance Asset Reconstruction Co. Ltd. **ReLI**∧NCE

Corporate Office: 11th Floor North Side, R-Tech Park, Nirlon Knowledge Park,

Off Western Express Highway, Goregaon East, Mumbai-400063 Asset Reconstruction DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13 (2) OF THE SARFAESI ACT, 2002

The below mentioned borrowers availed various credit facilities from Indian Overseas Bank. As borrowers have failed to maintain the financial discipline, the loan account has been classified as non-performing assets (NPA) by Indian Overseas Bank on 18.08.2014 in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India. Indian Overseas Bank vide Assignment Agreement dated 30.03.2022 assigned the financial assets of following borrowers along with all its right, title and interest together with all underlying security interests in favor of Reliance Asset Reconstruction Company Limited trustee of RARC 068 Trust.

Pursuant to said assignment the undersigned authorized officer in exercise of powers conferred u/s 13(2) of the said Act r/w Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 had sent the demand notices dated 28.12.2023 through registered post, thereby calling upon the borrowers to repay the entire outstanding mentioned in said notices with further interest thereon within a period of 60 days from the date of Notice. However, as demand notices could not be served some of the parties mentioned below, the same is hereby served upon the borrowers by way of alternative mode of service.

)e	tail	s a	re	as	foll	ows	:	•
								П

No.	Maille & Add of borrower/ Suarantors/ mortgagors etc.	Outstanding Amount (in his)					
1.	M/s Sunny Enterprises (Borrower) At: House No.126 Gali No.03 Mahaveer Colony Opposite Shiv Charan Dharamsala Malerna Road, Ballabhgarh, Faridabad-121004.	Rs.59,05,698.17/- (Rupees Fifty Nine Lakh Five Thousand Six					
2.	Mr. Sunny Gupta S/o Sh. Ramesh Chand Gupta (Proprietor, Mortgagor, Guarantor) At: House no.126 Gali no.03 Mahaveer Colony, Opposite Shiv Charan Dharamsala Malerna Road, Ballabhgarh, Faridabad-121004.	Hundred Ninety Eight and Seventeen Paisa Only) as on 30/11/2023 with future interest at the rate of 12.10 % p.a. thereon till the date of realization, within a period of sixty (60) days					
3.	Mr. Sharwan Kumar (Guarantor) At : House No. 99 Jain Colony	from the date of this notice.					

Details of Secured Movables/Immovable Properties:- Primary Security 1) EM on all part and parcel House Property situated at House No. 126, Gali No. 03, Mahavir Colony, Opp. Shiv Charan Dharamshala, Malerna Road, Ballabh Garh, Haryana-121004. Measuring 88 Sq. Yds (18ft X 44ft). Equitable mortgage of house property stand in the name of Mr Sunny Gupta S/0 Sh. Ramesh Chand Gupta. Boundaries: - South West:-Road 20ft wide, North East:-Shop of Mr.Kalra, North West:-House of Mr. Manish Mitlal, South East:-House of Mr. Juneja 2) Hypothecation of stock and Book Debts of M/S Sunny Enterprises At, House no.126 Gali no.03 Mahayeer colony opposite Shiy charan dharamsala malerna road, Ballabhgarh, Faridabad-121004.

In case of failure to repay the aforesaid entire outstanding amount within a period of 60 days, the undersigned shall be constrained to enforce the above secured assets under the provisions of SARFAESI Act.

Please note that as per Section 13 (13) of the said Act, you are restrained from dealing with or transferring any of the secured assets referred to herewith, whether by way of sale, lease or otherwise. Any contravention of this provision is an offence and punishable under SARFAESI Act. Place: Faridabad, Haryana

Date: 10.02.2024 **Authorized Officer**



PRITI INTERNATIONAL LIMITED

PLOT NO.F-43, BASNI IST PHASE, JODHPUR, RAJASTHAN-342001 INDIA PHONE: 91-291-2435699Mobile: 91-9314225699

E-MAIL: g.d.lohiya@gmail.com CIN: L36994RJ2017PLC058454 https://www.pritihome.com

Extract of Standalone Financial Results for the quarter ended on 31st December 2023 (Rs. In Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended Unaudited 31/12/2023	Quarter ended Unaudited 30/09/2023	Quarter ended Unaudited 31/12/2022	Nine Month ended Unaudited 31/12/2023	Nine Month ended Unaudited 31/12/2022	Year ended Audited 31,03/2023
1	Total Income from Operations	2214.92	2119.65	2820.32	6059.66	5378.83	8285.48
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)	412.95	449.39	343.57	1073.27	716.64	996.02
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	412.95	449.39	301.47	1073.27	674.54	953.92
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	309.02	336.29	217.71	796.46	487.23	711.55
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	289.18	337.35	217.71	802.82	487.23	711.55
6	Equity Share Capital	1312.73	1161.88	1161.88	1312.73	1161.88	1161.88
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			13.00			3390.63
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic:	2.20	2.90	1.91	6.12	4.54	6.50
	Diluted:	2.20	2.86	1.88	6.11	4.50	6.43

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Standalone Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Standalone Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at (https://www.nseindia.com) & website of Priti International Limited at (https://pritihome.com/investor/).

2. The Unaudited results have been reviewed by the Audit Committee of the Board at their meeting held on 09 February 2024 and approved

by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 09 February 2024. FOR PRITI INTERNATIONAL LIMITED

> PRITI LOHIYA MANAGING DIRECTOR DIN: 07789249



from the I

G T Nagar Near Soot Mill Chauraha, Aligarh

Praveen Kumar Gupta Contact no. - 9988712023"

S.

Bazar, Agra

Asset Recovery Branch, Agra, A/4,

E-AUCTION SALE NOTICE

& Other Expenses

10.07.2023

50,95,555.27

interest thereon

& Other Expenses

31,00,000/-

3,10,000/-

31,000/-

Sale Notice for Sale of Immovable Properties

E-Auction Sale Notice for sale of immovable Asset/s under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, read with provision to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charge to the Secured Creditor, the Constructive/Symbolic/Physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Union Bank of India (Secured Creditor), will

		ever there is" on the date mentioned below, for recovery of dues as ment s), The Reserve Price and the Earnest Money Deposit are also mentions			IN Bank of Indi
Borrower/Mortgagor/Guarantor Name & Address		Description of Properties	Poss-	EMD	Demand Note Date
			ession	Bid Increment	Amount Due
	Borrower: M/s Chhonkar associates, Guarantor-			1,02,00,000/-	11.05.202
	 Mr Anil Chhonkar S/o Late Harendra Singh, Mr Amit kumar Singh S/o Late Harendra Singh, 	plot no F-854 B, Govind Nagar Mathura, Area- 375.00 sq yards, Property in the name of Mr Sunil Kumar Singh		10,20,000/-	44,43,470
	3. Mr Sunil Kumar Singh Chhonkar S/o Late			1,02,000/-	interest thereon
- 1	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T		1777/7		OF STATES LIKE

Mathura, 4. Mrs Usha Rani W/o Late Sri Virendra Plot no 854 A, North- Mahavidhya Mandir, South- 80 feet Singh, Add.- 13 B, BSA College Road, Dwarika wide road Puri Mathura 2. Borrower: M/s Agnihotri Motors. Office Address- All that part and parcel of commercial land with shop Near bhargay petrol pump Sarai Rehman, G. T. property bearing Nagar Nigam No 6/694 Sarai Rehman, Road Aligarh, Prop.- Mr Naveen kumar Agnihotri G T Road, Aligarh, Area- 21.45 Sq Mtr, Property in the S/o Rajendra Prasad Agnihotri, Add. - House No. name of Mr. Naveen Kumar Agnihotri S/o Sri Rajendra 117, Lekhraj nagar, Near mittal nursing Home, Prasad Agnihotri, Bounded as: East- Shop of Ashraf Ali, Aligarh, Guarantor- Mr Deepak Kumar S/o Niyamat Ali, Masoom Beghum, West- Shop of Sarwari Prempal, Add.- House no 5/165, Beema Nagar, Beghum, North- G T Road, South- House of Khalil Bhai

Harendra Singh, Add. of all- F-854, Govind Nagar, Harendra Singh, Bounded as: East- Nala 854 C/F, West-


Detail of encumbranches over the above properties, as known to the Bank - Not Known. Date & Time of E-Auction: 14.03.2024, at 11:00 AM to 05:00 PM

Last date of Submission of bid: On or before the commencement of e-Auction. For detailed terms and condition of the sale, please refer to the link provided herein below or Contact "Authorised Officer Mr

https://www.unionbankofindia.co.in/english/TendelViewAllAuction.aspx

For Registration and Login and Bidding Rules visit https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp This may also be treated as STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) & Rule 9(1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002, to the borrower/s and guarantor/s

Date: 10-02-2024 Place: Agra Authorised Officer, Union Bank of India financialexp.epa



Date: 08.02.2024

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION PRIVATE LIMITED Regd. Off.: 9, M. P. Nagar, 1º Street, Kongu Nagar Extn., Tirupur-641 607, Tamil Nadu | Tel. No.: 0421-2221144 Corporate Off.: Kohinoor Square, 47th Fir., N. C. Kelkar Marg, R. G. Gadkari Chowk, Dadar (W), Mumbai-400 028, MH.

Tel. No.: 022-26544000 | Email: mumbai@omkaraarc.com | www.omkaraarc.com | CIN: U67100T22014PT0020363 [Appendix-IV-A] [See proviso to rule 8(6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPOERTY

DATE OF E-AUCTION: 12TH MARCH, 2024 E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. NOTICE is hereby given to the Public in General and in particular to the Borrower and Co-borrower that the below described immovable property mortgaged / charged to the Secured Creditor, will be sold in exercise of rights and powers under the provision of Section 13(2) and 13(4) of SARFAESI

Act on "As is where is" & "As is what is" and "Whatever there is" and "Without recourse basis" on 12th March 2024 at 11.00 A. M. (Last date and

The Omkara Assets Reconstruction Pvt. Ltd., acting in its capacity as Trustee of Omkara PS 04/2020-21 Trust (OARPL) has acquired entire outstanding debts lying against above said Borrower & Co-borrower vide Assignment Agreement dated 15th June 2020 along with underlying security interest from ECL Finance Limited (ECL). Accordingly, OARPL has stepped in the shoes of ECL, the original secured creditor, and become entitled to recover dues and enforce the securities.

time for submission of bid form is 11th March 2024 up to 4.00 P. M.) for recovery of outstanding amount.

The description of the Borrower and Co-borrower and the amount outstanding along with Interest and Expenses due to OARPL from below mentioned Borrower and Co-borrower and description of the Immovable Property, reserve price and the earnest money deposit and known encumbrances (if any) are as under:

Minimum Bid Earnest Particulars of Loan Account Description of the Property Price Money Deposit Increment Amt. Engineers All that Piece & Parcel of Shop No. UGF 49 and Shop ₹ 95,00,000/-₹ 9,50,000/ ₹ 1,00,000/-Private Limited (Borrower) No. UGF 50 (each Admeasuring 570 Sq. ft.) part of (Rs. Ninety (Rs. Nine Lakhs (Rs. One Lakhs 2. Mr. Mukesh Kumar Laad S. N. G. Plaza constructed over Plot No. P-8 Sector | Five Lakhs Fifty Thousand Only) Builders Area Golf Link-1, Greater Noida-201 308. Only)

AMOUNT HUTSTANDING	₹ 1,80,17,093/- as on 30th September 2020 Plus future interest & expenses till date of payment & realization of all dues.
Status of Possession	Physical Possession was taken by the Authorized Officer of OARPL on 22rd December 2023.
Date of Inspection	08th March 2024, during 11.30 a. m. to 12.30 p. m.
documents for participation	11th March 2024 up to 4.00 p. m. at Branch Office of OARPL located at 8-219, Ansal Chamber 1, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 or at E-mail ID:- ankur.rastogi@omkaraarc.com/manbir.chawla@omkararac.com. Further, you may contact OARPL officials on 82189 04686 / 99688 75743
Any Encumbrance	Not Known
Any other nelevant	All bidders are advised to visit on www.omkaraarc.com / http://omkaraarc.com/auction. php or www.bankeauctions.com for detailed terms and conditions of E-Auction. The Intending bidders shall comply & give declaration under Section 29A of Insolvency & Bankruptcy Code, 2016.

JAIN MARMO INDUSTRIES LIMITED Regd. Office: 47/10, kiran Path, Mansarowar, Jaipur-302020

Authorised Officer, Omkara Assets Reconstruction Private Limited

(Acting in its capacity as a Trustee of Omkara PS 04/2020-21 Trust)

Phone No. + 91- 294 2441666, 2441777, Fax: + 91- 294 2440581 Website: www.jainmarmo.com EMAIL: jainmarmo_udr@yahoo.com, CIN: L14101RJ1981PLC002419 **UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND** Rs. in Lakhs NINE MONTH ENDED 31ST DECEMBER 2023

NINE MON	H ENDED 3121 I	DECEMBER 2023	Rs. in Lakh
Particulars	Quarter Ended 31st December 2023 (Un-Audited)	Nine Month ended 31st December 2023 (Un-Audited)	Corropondence Quarter ended 31st December 2022 (Un-audited)
Total income from operations (net)	29.03	56.76	120.37
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-9.19	-44.03	12.21
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-9.19	-44.03	12.21
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-6.80	-28.58	10.06
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-6.80	-28.58	10.06
Equity Share Capital	313.06	313.06	313.06
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		8*3	63
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic and Diluted:	-0.22	-0.91	0.32

(A)The above Financial Results for the guarter and nine month ended December, 31 2023 have been reviewed by the Audit Commmittee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on February 09th 2024 Note:- The above is an extract of the detailed format of quarterly and hlaf yearly results filed with the

stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirement) Regulation 2015. The full format of the Un-audited results for the quarter and nine month Ended 31.12.2023 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the company's website (www.jainmarmo.com) On behalf of the Board

For Jain Marmo Industries Limited

Place:- Udaipur Date:- 09.02.2024

Sidharth Jain Managing Director DIN:- 01275806

New Light Apparels Limited GC-29, Basement, Shivaji Enclave, Raja Garden, New Delhi-110027

Email: newlight.apparels@gmail.com, Tel: 9810192160

NOTICE Notice is hereby given that 01st Extra Ordinary General Meeting (EOGM) (01/2023-2024) of New Light Apparels

Limited ("the Company") will be held on Tuesday, 05th March, 2024, at 02:00 P.M. at GC-29, Basement, Shivaji Enclave, Raja Garden, New Delhi-110027 to transact the business as mentioned in the Notice of EGM. The Notice of EOGM has been sent to all the members who have registered their e-mail address with Depositories/ RTA/Company and whose names appear in the Register of the Members/Record of Depositories as on 02nd February, 2024 by e-mail only pursuant to MCA circular dated 05th May, 2022 read together with circulars dated 08th April, 2020, 13th April, 2020 and 05th May, 2020 and SEBI circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/ 2022/62 dated 13th May, 2022. Notice is further given pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, that: 1. The Company is providing e-Voting facility to the Members of the Company to enable them to cast

their votes electronically on the items mentioned in the Notice of EGM.

The e-Voting period will commence on Friday, 02nd March, 2024 at 09:00 A.M.

3. The e-Voting period ends on Sunday, 04th March, 2024 at 05:00 P.M.

4. Cut-off date: 27th February, 2024.

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as voting in the General Meeting. 6. The persons who have acquired shares and become the members of the Company after the dispatch

of Notice but before the cut-off date may obtain the login ID and password for availing the facility of

e-Voting by following instructions given in the Notice of EGM. Members of the Company holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the

cut-off date shall be entitled to avail the facility of e-Voting or voting in the General Meeting by way of

8. The e-Voting shall not be permitted beyond the aforesaid date and time. A member may participate in the Extra Ordinary General Meeting even after exercising his right to vote

through remote e-Voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

10. In case of any query or grievances connected with the voting by electronic means, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQ's) and e-voting manual available at the download section of

the http://www.evoting.nsdl.com or may contact:a) Mr. Puneet Mittal, Beetal House, 3rd Floor, 99 Madangir, Behind Local Shopping Center, Near

Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi-110062; Email: beetal@beetalfinancial.com

b) Mr. Sandeep Makkad, (Managing Director), New Light Apparels Limited, GC-29, Basement, Shivaji Enclave, Raja Garden, New Delhi-110027; Email: newlight.apparels@gmail.com, Tel: 9810192160. 11. The Company is conducting the EOGM physically, but in compliance with the above provisions and

circulars, electronic copies of the Notice of the 01st EOGM (01/2023-2024) has been sent to all the members of the Company whose email address are registered with the Company/ Depository

Participants/ Registrar & Share Transfer Agent ("RTA"). 12. The notice of EOGM will also be available on the download section of http://www.evoting.nsdl.com and website of the Company at https://newlightapparels.com/agm-1 and the website of stock exchange where the equity shares of the Company are listed i.e. (BSE Limited) at www.bseindia.com.

13. Manner of registering/updating email addresses:

a. Those Shareholders who are holding equity shares in physical mode who have not registered/ updated their email address, PAN and Banking Details with the Company/ RTA are requested to update above said information be writing to the Company at newlight.apparels@gmail.com along with copy of signed request letter mentioning the name and address of shareholder, proof of Bank Details and self-attested copy of PAN/ any other identity and address proof.

Those shareholders who are holding shares in dematerialized mode and have not registered/ updated their email address and banking details with their Depository Participant(s), are requested to register/ update their email address with the relevant Depository Participant(s).

14. Manner of casting vote through e-voting: The Company will be providing remote e-voting facility to all its shareholders to cast their votes on the business as set forth in the Notice of EGM. The login credentials for casting votes through remote e-voting shall be made available to the shareholders through Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, 27th day of February, 2024 to Tuesday, 05th Day of March, 2024 (both days inclusive) for the purpose of EOGM to be held on 05.03.2024 (Record date: 02nd February, 2024). For New Light Apparels Limited

Sandeep Makkad

(Managing Director) Office Add.: GC-29, Basement, Shivaji Enclave

Place: New Delhi

Date: 09.02.2024

Raja Garden, New Delhi-110027

New Delhi

(in Lakhs)

ऋणकर्वा(ओ) /	मांग सूचना तिथि	अपल र	रंपरित / प्रतिभूत परिसंपरित का विवरण	भौतिक अधिग्रहण	आरक्षित मूल्य	
सह-ऋषकर्ता(ओ) /	एवं राषि	STEERS OF		की तिथि	Ø 8.00.000/−	
गारंटर(री) के नाम	24-W72023 ** 15.62.188 /	10 m	स्त वह भाग तथा क्षेत्र, जिस घर पलैट नंबर	27-अवद्वर-2023	(रुपये नी ताख मात्र)	
 श्रीमती प्रीति श्री आकाश प्रीत्पेक्ट नं. 	(रुपये पंदह लाख बासत हजार एक सौ अटठासी मात्र)	कालीन के सा	शरी मंजिल पर, पीछ आर.एच.एस. १ बीएनके, ध 280 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला विद्यापन, और १. बोडफल विक्षापन माप 385 वर्ग, फ्लॉट नंबर	दिनांक 05-फर2024 के अनुवार कुल मकाया	धरोहर राशि जमा (ईएमडी)	
IL.10226189)	मोली वृद्धि सशि रु. 20,000/- (रुपये बीत हजार गात्र)	एक्सटॅशन, गार्	विक्रम एन्क्लेब, गांव-पसीदा, शालीमार गार्वन क्रेयाबाद, उत्तर प्रदेश, 201006, भारत। 00 वर्ग फुट, कारपेट क्षेत्र,-320 वर्ग फुट)	रः 17,07,599 /— (रुपये संवह लाख सात हजार पांच सी निन्यानवे मात्र)	रु. 90,000 / - (रुपये गब्धे डजार मात्र)	
1. श्री सचिन कुमार	27-मई-2023	संपत्ति के सम	त वह भाग तथा अंश, बिस्ट-अप वैक साइव	04-4444-5053	图 17,00,000/-	
2. श्रीमती बरखा (मीरपेक्ट नं. II.10108952)	रः 21,12,812 / – (रुप्पये इक्कीस लाख बारह हजार आठ सी बारह मान्।	The Court of the C	(दाहिनी ओर) रूक/टैरेस राइट्स प्राइतेट के न.)—402, कारपेट एरिया 400 वर्ग जीट, सुपर	दिनांक 05-फर2024 के अनुसार कुल बकाया क. 23.42.084/	(रुपये संत्रह लाख मात्र)	
	बोली वृद्धि गणि	LOS TRANSPORTATION	ण क्या रोक संपत्ति के हिस्से के क्षेत्र में खतरा नंबर	(रुपये तेईस लाख बयालिस		
	रू 25,000 / — (रुपये पच्छीस हजार मात्र)	502 में से अस प्रवेश/हार, ची और एक छोटी	राक संपत्ति के हिस्स के द्वात में व्यस्तर नवस् र नंबर बी-17, साथ में दी केस का उपयोग करने के सामान्य अधिकार कार पार्किंग के साथ गार्ग भूतल पर स्थान, के है ग्राम नवादा एवं कॉलोनी के नाम से जाना	हजार चीचनधे सात्र}	भरोडर राशि जमा (ईएमडी) क. 1,70,000/— (रुपये एक लाख शत्तर हजार मात्र)	
s. श्री विवेक कमार	26-नर्ग-2022	भगवती गार्दन	क्लीक-बी में जतन नगर, नया दिल्ली-110059	अनुसार कृत बकाया	रु. 4,00,000 /- (रुपये चार लाख मात्र)	
2. श्रीमती पूनम कुमारी	多. 8,89,184 /一		क्त यह माग तथा अंश, जो प्रलैट क्रमांक	10-जनवरी-2023		
	(रूपये आठ लाख चन्यासी हजार एक सी चीरासी मात्र)		চল ২৫১ বৰ্গ দুত ভাৰ্বত	दिनांक 05-फर2024 के		
	बोली वृद्धि शक्ति रु 20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र)		6 वर्ग फुट सुपर बिल्ट अप, टाइप—सी, तीसरा 9. दिनेश नगर, पिलापुंज, गाजियाबाद 245304, री क्षेत्र, भारत।	जनुसार कृत बकाया रु. 12,61,042/- (रुपये बारह लाख इकसठ हजार बयालिश गात्र)	धरोहर राशि जमा (ईएमटी) ७. 40,000 / – (क्परी यातीस हजार मात्र)	
23	संपत्ति के निर्वेशन की विकि फर2024 को 11.00 14.00 को		वराज अंतिन तिथि 26-कर-2024 को 5 को तक	ई-नीलानी की ति 28-फर-2024 की 11		
पनिसंपत्ति हेनु उपलब्ध किं टियमी: प्रत्येक संपरित/5 से व्यतियमें का इरादा किंय सकल बोलीयान होने पर,	क के माध्यम से ही भुगवान करना होगा। प्रतिभूत परिसंपत्ति के लिये भुगतान लिंक पृथ 1 है। हेप भुगतान के लिये, आपको आटोजीएस/एन	क है। सुनिशिष्ण स्ट्रेंएफटी के मध्यम	नुगयान करने के लिये आपको https://www.iifk हरे कि आप उसी लंपरित/प्रतिभूत परिभागीत के सि से मुख्यान करना होगा। खातों के विकल इस प्रकार र प्) आईएकएमसी करेड — SCBI.0034001, ड/	क का उपयोग कर रहे हैं, जिसे आपने र हैं: क) खारा का नाम :- आईआईएफ	सार्वजनिक गीलामी के माजा इस होन फाइनेंस सि. ख) वैब	
			7770 TRUES			

नियम एवं शर्ते :-

- ई-मीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए इन्हरूक बोलीदाताओं से अपेका है कि वे अपने विवरणों को पर्याप समय पूर्व सेक प्रदाता की वेबसाइट https://www.iifbenchome.com/ के साथ पंजीवत कर र और उन्हें इस हेयु लेकिन खाता, लेकिन आहंकी व पासवर्क सुनित करना होया। इब्युक बोलीयाताओं को अपने "निविदा प्रपत्न", वराज के मुगतान विवरणों, कंबाईसी एवं पैन कार्ड की प्रतियों के साथ उप वर्णित शास्त्र कार्यालय में प्रश्तुत / प्रेषित करने होने
- बोलीदावाओं को अपने प्रस्ताय को, स्तंत मुद्धि राषि के अंतर्गत अकित साथि के गुणक में बदाना होगा। यदि नीजामी के समायन समय के अंतिम 5 मिनटों में बोलीदान किया जाता है तो समायन सम
- रूपन बोलीयात को बोली राषि की 25 प्रतिषत राषि (बराज कर समायोजन करने के उपरान्त) एक्षी द्वारा बोली मून्य की स्वीकृति के 24 पोटी के अंदर जना करनी होगी तथा बोली राषि की शेष 75 प्रतिष रकाम अतिथात लेकवार द्वारा जिल्ला की अभिवादि किए जाने की तिथि से 15 दिवसों के अंवर जाना कानी होगी। समस्य जागए तक मुगतान को है सो मुगतान के निर्धालिक प्रारूप के सहत किए जाने हैं। क्रेता को सम्पति से संबंधित समस्त करों एवं दर्शे लागतों सहित चपकर, लागू स्टांव शुरक, शुरकों एवं किसी अन्य संवैधानिक देवराणि अध्य अन्य देवताओं जैसे नगर निगम कर, विद्युत प्रभारों, भूमि एवं सम उल्प उत्तकरिमक लागलाँ, प्रभावों कर भूगताल बहन करना होगा।
- बोलीदावाओं को सलाह है कि वे ई-मीलामी विक्रय कार्यवाहियों में मान लेने के लिए अपनी बोलियां जमा करने से पहले नीलामी विक्रय के विश्तुत निवमी एवं तार्वी तथा नीलामी आवेदन प्रथम हेतु वेबसाह https://www.iiflonchome.com (% https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction & # #)
- विकरणे महामान प्रक्रिया लखा ई-मीलामी पर जीनलाइन प्रविधम के लिए प्रसादित बोलीदालागण जो है, वे संग्रा प्रदाता से ई-मेल आईडी :- auction.ht/वांशी.com, महामान सेल्पलाइन नवर्गरू 1600 267 राज्यांति विवरणं, रांचति के निर्शिष्टण तथा ऑनलाइन बांती, इत्याचि ये तांबरिक किसी पूधताछ के शिर आईआईएकएल एकएकएल टील की नं. 1600 2672 499 पर लोगधार से सुक्रवार के गाय प्राप्त. 9.20 करे
- से सार्व 18:00 बजे तक कॉल करें या नवजपददर्गस / पपरिस्थवार पर ईमेल करें। एतवृद्वारा उपरोक्त करणवर्णाओं को सूचित किया जाता है कि वे उन फोलू बस्तुओं को 7 जिवसों के अंदर एकत्र कर लें. जो मीतिक अधिकप लिए जाने के समय पर प्रतिमृत परिसम्पत्ति ज्यात पर पत्नी हा
- होंगी. अन्यथा अईअईएक्एस-एकएकएल किसी भी परिस्थिति में सम्पति की किसी हानि हेतू उत्तरदायी नहीं होगी। एतदहारा तथारकर्ता/ओं वरे आगे यह सुचित किया जाता है कि यदि वे उक्त वस्तुओं वरे उठाने में विफल होते हैं तो उन्हें विधि-व्यवस्था के अनुसार बेया विधा जायेगा।
- पार्थका अनुवधित समय के अंदर राकल बोलीदाता / गीलानी अंदर द्वारा किसी भी घरण में मुगलान में चुक किए जाने की विकार निरस्त कर दिया जाएया तथा पहले चुकता की गई साबि (अंदर सहित) की जबा कर लिया जाएगा तथा सम्पतित की फिर से बेचने के लिए रख दिया जाएगा।
- . ए.ओं के पान यह अधिकार शुर्वित है कि वे बिना कोई कारण मताए ही निविदा / नीजामी के निपमं एवं सतों को रवगित / निरस्त कर राकते हैं अधवा छन्हें बदल सकते हैं। निविदा / नीजामी में किसी विवार वी निधारि में आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।
- सरकोंएसि अधिनियम 2002 के नियम 9 छय-नियम (1) के अंतर्गत 15 वियसीय विक्रय सूचना ऋषकर्ता को एतदहार अधिकृषित किया जाता है कि ये निविदा / नीतानी की विविद से पूर्व जगर अविदानुसार राणि का अधानीकृत ब्यान एवं अनुमनिक वार्वों के संघ भूगतान कर दें। बुरतान करने में विकत

रहने पर, सम्पत्ति की नीलामी की जाएगी ∕ उसे देया जाएगा तथा होष देवनावियों, यदि कोई निकलती हों, की बसुली ब्याज एवं लागत के साथ की जायेगी। हस्ता./- प्रामिकृत अधिकारी, आईआईएकएस होम काइनेंस सिमिटेड

स्थान : दिल्ली / गाजियाबाद, दिनांक : 24-जन-2024

ऐक्सिस बैंक

मॉग नोटिस

रिटेल एसेट्स सेटरः प्रथम तल. जी-4/5 बी सेटर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ- 226010 रजिस्टर्ड ऑफिसः (त्रिशूल), तृतीय तल, समराथेवर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006

चुंकि यहां नीचे वर्णित उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं / जमानकर्ताओं / बन्धककर्ताओं ने एक्सिस बैंक लि0 से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी तथापि हम स्पष्ट करते हैं कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद भी उधारकर्ता / जमानतकर्ता / बन्धककर्ता नियत तिथियों के अनुसार मुलधन तथा ब्याज का प्रतिभूगतान करने में विभिन्न प्रकार की चुकें कर चुके हैं। अतएव उनके खातों को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावती 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत एक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकृत आधिकारी के अनुशंगानुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित निर्देशों / दिशानिर्देशों के अनुपालनुसार वहां नीचे वर्णित संबंधित तिथियों पर अनर्जक परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया हैं, जिसके अनुपालन के लिए उन्हें सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 की धारा 13(12) के अन्तर्गत यहां नीचे वर्णित संबंधित तिथियों पर मांग सचनाएं नियमित की गई थी, जिनमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं / जमानकर्ताओं / बन्धककर्ताओं को सचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर सूचनाओं में वर्णित राशि पर संविदात्मक दर पर भावी ब्याज तथा भूगतानकर तिथि तक आकिस्मक व्ययों, लागत, प्रभारों इत्यादि के साथ सूचनाओं में वर्णित राशि का प्रतिभूगतान करने को कहा गया था।

1	खातेदार / सह—ऋणी / जमानतकर्ता (ओं)	सुरक्षित सम्पत्तियों	कुल बकाया
	का नाम एवं पता	का विवरण	धनराशि
	नीरज नरौला (ऋणी) पुत्र श्री केवल कुमार नरौला पता:—1 केप्पर रोड, बी.एन. घाई लेन लालबाग, हजरतगंज लखनऊ उ०प्र० 226001, पता: 2. मकान नं० 1/192 टाइप—सी विनम्र खंड (वी कोड_ 0254), वार्ड चिनहट (कोड—028) गोमती नगर योजना खतौता चौराहा के पास, लखनऊ उ०प्र० 226010, पता: 3. सी/ओ मै० सूर्यांश इन्टरप्राइजेस, शॉप नं० एफएफ 1—2, गौरा मार्केट 56 ग्वन्ने रोड, अमीनाबाद, लखनऊ उ०प्र० 226018, पता: 4. मकान नं० 40 (नगर निगम हाऊस टैक्स नं० 131/044, 131/030/1) वार्ड रानी लक्ष्मी बाई वार्ड केसर बाग, लखनऊ उ०प्र० 226001, श्रीमती पूजा नरौला (सह—ऋणी) पत्नी श्री नीरज नरौला पता:—1 केप्पर रोड, बी.एन. घाई लेन लालबाग, हजरतगंज लखनऊ उ०प्र० 226001, पता: 2. मकान नं० 1/192 टाइप—सी विनम्र खंड (वी कोड_ 0254), वार्ड चिनहट (कोड—028) गोमती नगर योजना खतौता चौराहा के पास, लखनऊ उ०प्र० 226010, पता: 3. मकान नं० 40 (नगर निगम हाऊस टैक्स नं० 131/044, 131/030/1) वार्ड रानी लक्ष्मी बाई वार्ड केसर बाग, लखनऊ उ०प्र० 226001	भूमि / सम्पत्ति भवन नं0 40 का भाग, (मकान नं0 40, (नगर निगम हाऊस टैक्स नं0 131 / 044, 131 / 030 / 1) स्थित केसरबाग, वार्ड रानी लक्ष्मी बाई, बेगम हजरत महल पार्क के पास, लखनऊ। एरियाः 3324 वर्ग फीट, चौहद्दीः पूरब—8 फीट चौड़ा सामान्य मार्ग मार्क्ड नं0 14, पश्चिम—हिस्से की बेची गयी दीवार फिर चिह्नित मार्ग सं0 12, उत्तर— बेचे हुए हिस्से की सामान्य दीवार का चिह्नित भाग ए—43, एवं ए—44 एवं चिह्नित भाग 8, दिश्वण—बेचे हुए हिस्से की सामान्य दीवार का चिह्नित भाग ए—21, एवं ए—22 उसके बाद चिह्नित मार्ग नं0 05 विक्रेता के भवन योजना के भाग में।	(ब्याज दिनांक 31.12.2023 तक) + ब्याज एवं अन्य खर्चें दि. 30.01.2024 तक एनपीए दि. 29.01.2024 देय सूचना की तिथिः 30.01.2024
	खंड (वी _कोंड 0254), वार्ड चिनहट (कोंड—028) गोमतीनगर यो		

पश्चिम— प्लॉट नं0 1/191, **उत्तर**— प्लॉट नं0 1/196, 1/197, **दक्षिण**—रोड 15 मी. चौड़ा। उपर्यूक्त परिस्थितियों के अन्तर्गत एतदद्वारा उपरोक्त उधारकर्ताओं, सह— उधारकर्ताओं तथा / अथवा उनके जमानकर्ताओ (जहाँ कहीं लागू हों) को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भावी ब्याज तथा यथालागू प्रभारों के साथ उमर्युक्तानुसार बकाया देयरराशियों का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता हैं । ऐसा करने में विफल होने पर इस सूचना की तिथि के 60 दिनों के समापन के उपरांत प्रतिभृत परिसम्पत्तियों के विरूद्ध आगे की कारवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियामवली 2002 की धारा 13(4) तथा उसके अन्तर्गत यथा लागू नियमावली के अधीन उधारकर्ताओं और बन्धकर्ताओं की प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का कब्जा लिया जाना भी सम्मलित होगा। ऋणी / सह—ऋणी / बन्धकर्ता एवं जमानतकर्ताओं का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक

सम्पत्ति श्री नीरज नरौला एवं श्रीमती पूजा नरौला के नाम। **चौहद्दीः पूरब**—प्लॉट नं0 1/194,

सम्पत्ति की रीडीम (मोचन) कर सकते हैं। कृपया नोट करें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अन्तर्गत कोई भी नोटिसी बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस सूचना में संदर्भित अपनी किसी भी प्रतिभूत परिसम्पत्ति को विकय, पट्टा के माध्यम से अन्यथा हस्तांतरित नहीं कर सकेगा (प्रा0 अधिकारी) एक्सिस बैंक लि0 दिनांकः 10.02.2024

अनुसूची । [फार्म बी] सार्वजनिक घौषणा (भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अंतर्गत) ईको ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड के हितधारको के ध्यानार्थ हेतु विवरण कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम ईको ऑटो कंपोनेंटस लिमिटेड कॉर्पोरेट देनदार के गठन की तिथि प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट देनदार कंपनी रजिस्टार दिल्ली एण्ड हरियाणा. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या U34300HR1971PLC005761 कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय एवं **पंजीकृत कार्यालय** : प्लॉट नं.-388 सेक्टर-24, प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता फरीदाबाद, हरियाणा-121004 दिवाला समाधान प्रक्रिया बंद होने की तिथि |01.02.2024 | माननीय एनसीएलटी दवारा परिसमापन का आदेश पारित होने तक कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में समापन प्रक्रिया[01.02.2024 [हालांकि, रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ने प्रारम होने की तिथि बारे में सूचित किया है] परिसमापक के रूप में कार्य करने वाले नाम : सुधाशु गुप्ता दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण परिसमापक का पता और ई-मेल, जो पता : 311, अग्रवाल चेम्बर 2, प्लॉट नं. 30, 31 वीर सावरकर ब्लॉक, ऑपोजिट मैट्रो पिलर नं 58, शकरपुर बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत हैं स्ट दिल्ली, दिल्ली -110092 मेंल आई की : sg_1973@rediffmail.com 0 परिसमापक से साथ पत्राचार के लिए पत्राचार का पता : 311, अग्रवाल चेम्बर 2, प्लॉट नं. 30, 31 वीर सावरकर ब्लॉक ऑपोजिट मैटो उपयोग किया जाने वाला पता और ई-मेल पेलर नं. 58, शकरपुर ईस्ट दिल्ली, दिल्ली –110092 पत्राचार के लिए ई मेल आईडी 11. दावों को जमा करने की अंतिम तिथि 09.03.2024 एतदद्वारा सचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण चंडीगढ़ बेंच. ने ईको ऑटो कंपोनेंटस लिमिटेड को **01 फरवरी, 2024** को समापन प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है।

ईको ऑटो कंपोनेंटस लिमिटेड के सभी हितधारको को आइटम नंबर 10 के सामने उल्लिखित किये पते पर सबूत सहित अपने दावों को परिसमापक के पास 09 मार्च, 2024, तक या उससे पूर्व जमा करने की अपेक्षा की जाती है।

सभी हितधारको व्यक्तिगत रूप से, ढाक द्वारा या इलेक्टोंनिक पद्धति से अपने दावों के प्रमाण जमा कर सकते।

दिवालियापन बोर्ड (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालियापन समाधान प्रक्रिया) नियम, 2016 के तहत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान ऐसे हितधारकों द्वारा प्रस्तृत दावों को धारा 38 के तहत प्रस्तृत किया जाएगा

www.readwher com

इस्ताक्षर / सुधांशु गुप्ता परिसमापक दिनांक : 09.02.2024 स्थान : दिल्ली

8.02.2024 को ईमेल के माध्यम से एनसीएलटी आदेश के पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-002/IP-N00216/2017-

वित्तीय लेनदार को सबुत सहित अपने दावों को केवल इलेक्ट्रोंनिक पद्धति के माध्यम से जमा करना होगा। अन्य

दावों के झुठे या मिथ्या प्रमाण जमा करने पर दण्डित किया जायेगा। यदि कोई हितधारक परिसमापन प्रक्रिया के दौरान अपना दावा प्रस्तत नहीं करता है तो भारतीय दिवाला एवं

> ईको ऑटो कंपोनेंटस लिमिटेड के मामले में पंजीकरण सं : IBBI/IPA-002/IP-N00216/2017-18/10668 311, अग्रवाल चेम्बर 2, प्लॉट नं. 30, 31 वीर सावरकर ब्लॉक, ऑपोजिट मैट्रो पिलर नं. 58, शकरपुर ईस्ट दिल्ली, दिल्ली-110092 (इंडिया) ई मेल : sg_1973@rediffmail.com

Capital Trade Links Limited

CIN: L51909DL1984PLC019622 Regd. Office: 102-103, First Floor, Surya Kiran Building, 19 K.G.Marg, Connaught Place, New Delhi 110001 Website: www.capitaltrade.in & Email: info@capitaltrade.in

Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the guarter and nine months ended December 31, 2023

S.			Quarter End	ed	Nine mon	Year Ended		
No.	Particulars	31.12.2023 Unaudited	30.09.2023 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	31.12.2023 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	C 1004 No. 1011 NO. 1 Copy	
1	Total Income	1829.13	937.97	479.14	3474.71	1151.49	1683.99	
2	Net Profit/(loss) for the period (before tax , exceptional and extraordinary items)	715.79	188.79	129.31	1099.21	310.96	373.57	
3	Net Profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and extraordinary items)	715.79	188.79	129.31	1099.21	310.96	373.57	
4	Net Profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items)	560.83	132.17	72.71	827.76	198.52	249.74	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period after tax) and other comprehensive income (after tax)]	560.83	132.17	72.71	827.56	198.52	249.74	
6	Equity Share Capital	609.8	609.8	609.8	609.8	609.8	609.8	
7	Reserves excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the year	3243.62	3243.62	3243.62	3243.62	3243.62	3243.62	
8	Earnings per Share (for continuing and discontinued operations)					11	03	
	A Basic(Rs.)	0.92	0.22	0.12	1.36	0.33	0.41	
	B- Diluted (Rs.)	0.92	0.22	0.12	1.36	0.33	0.41	

Date: February 9, 2024

Place: Delhi

(b) Age

- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company on
- The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the guarter and nine months ended December 31 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the guarter ended are available on the website of BSE at www.bseindia.com and on Company's website www.capitaltrade.in

On behalf of Board of Directors of Capital Trade Links Limited

> Vinay Kumar Chawla Whole Time Director DIN: 02618168

PUBLISHING OF VACANCY NOTICE

 One post of Accountant (Officer's Mess) is vacant in Officer's Mess (Non Public Fund) of. 03 Wing Air Force Station Palam. The post is purely temporary and applicant will not claim for Permanent employment in the Indian Air Force at any stage. The employment will be governed by the terms and conditions issued by Air HQ from time to time. The candidates fulfilling the following criteria may collect Application Form from Officer's Mess office, 03 Wing Air Force Station Palam" on all working days from Monday to Saturday between 0900 hrs to 1700 hrs from 10 Feb 24 to 29 Feb 24 Recruitment.

(a). RECRUITMENT FOR ACCOUNTANT Officer's MESS NON PUBLIC FUND VENTURE PVT.

(i) Educational Qualification : Minimum 12th pass with commerce stream

(ii) Professional Qualification: (i) Undergone basic course in computer Application

(ii) Minimum Typing speed in English 30 wpm

: Worked as an Accountant for 1-2 years (iii) Experience

(Preferably)

Age relaxation for Ex-Serviceman Up to the age of 40 years.

: 18-35 years as on 01 Jan 2024

Rs 21,215/- per month (for Accountant) (c) Salary (Wages as per Delhi Govt -Minimum wages wef (01/10/2023).

(d) Working hours Six days in a week from 0900hrs to 1700hrs. 2. Duly completed application forms along with photocopies of educational, professional and experience certificates and recent passport size photograph duly

signed by a Commissioned / Gazetted Officer to be deposited at Officer's Mess. Air Force Stn Palam between 0900hrs to 1700hrs from 10 Feb 24 to 29 Feb 24. All the applications will be scrutinized and eligible candidates will be called for written test followed by interview. Intimation will be given to the candidates well in time. No TA/DA will be admissible to the candidates for the same.

This is for your information and necessary action.

(Neha Chaudhary) Wg Cdr Mess Secretary Officer's Mess



ओकारा असेट्स रिकस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 9, एम.पी. नगैर, फर्स्ट स्ट्रीट, कोंगू नगर एक्सटेंशन, तिरूपुर—641607, तमिलनाडु । **टेलीफोन** नंबर : 0421—2221144 कार्पोरेट कार्यालय : कोहिनूर स्क्वायर, 47वां तल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (वेस्ट), मुंबई-400028, एमएच फोन : 022-26544000 । **ई-मेल :** mumbai@omkaraarc.com www.omkaraarc.com **सीआईएन** : U67100TZ2014PTC020363

परिशिष्ट — 4—क||नियम 8(6) का परंतुक देखें| अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना ई-नीलामी की तिथि : 12 मार्च, 2024 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)

नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना एतदद्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार तथा सह–कर्जदार को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास् बंधक / प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, बकाया राशि की वसूली के लिए, सरफासी ऐक्ट की धारा 13(2) और 13(4) के प्रावधान के तहत प्रदत्त अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए "जैसी है जहां है", "जो है जैसी है" तथा "जो भी है वहां है" और "कोई उपाय नहीं" आधार पर दिनांक 12 मार्च, 2024 को पूर्वा 11.00 बजे बेची जाएगी (बोलियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि और समय

11 मार्च, 2024 अप. 4.00 बजे तक है)। ओंकारा असेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने ओंकारा पीएस 04 / 2020-21 ट्रस्ट के ट्रस्टी (ओएआरपीएल) की हैसियत से कार्यवार्ह करते हुए, समनुदेशन अनुबंध दिनांकित 15 जुन, 2020 के माध्यम से, ईसीएल फाइनैंस लिमिटेड (ईसीएल) से उक्त कर्जदार एव सह—कर्जदार के संबंध में सम्पूर्ण बकाया ऋण उसके तहत प्रतिभृति हित सहित अधिग्रहीत कर लिए हैं। तदनसार ओएआरपीएल ईसीएल, मूल प्रतिभूत लेनदार, का स्थान ले लिया है और बकाया राशि वसूल करने तथा प्रतिभूतियों के प्रवर्तन का हकदार हो गया है कर्जदार और सह-कर्जदार तथा ओएआरपीएल की नीचे वर्णित कर्जदार और सह-कर्जदार की तरफ ब्याज और खर्चों सहित बकाय राशि तथा अचल सम्पत्ति का वर्णन, सुरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा तथा ज्ञात ऋणभार (यदि कोई) निम्नानुसार हैं :

ऋण खाता का विवरण	सम्पत्ति का वर्णन	सुरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा	न्यूनतम बोली वृद्धि राशि		
लिमिटेड (कर्जदार)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : दुकान नंबर यूजीएफ 49 और दुकान नंबर यूजीएफ 50 (प्रत्येक परिमाप 570 वर्ग फीट), जो ; प्लॉट नंबर पी—8 पर, सेक्टर बिल्डर्स एरिया गोल्फ लिंक—1, ग्रेटर नोएडा—201308 में निर्मित एस.एन.जी. प्लाजा का भाग है।	95,00,000 / — (रूपए पिच्यानवे	रू. 9,50,000 / – (रूपए नौ लाख पचास हजार मात्र)	रू. 1,00,000 / — (रूपए एक लाख मात्र)		
बकाया राशि रू. 1,80,17,093/— 30 सितम्बर, 2020 तक + सभी बकाया के भुगतान एवं वसूली एवं खर्चे						
कब्जा की स्थिति निरीक्षण की तिथि	एफआईसीसीएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कर 08 मार्च, 2024 को पूर्वा. 11.30 बजे से अप. 12.30 बजे		र, 2023 को लि	या गया था		

प्रतिभागिता हेतू बोली 11 मार्च, 2024 को अप. 4.00 बजे तक ओएआरपीएल के बी–219, अंसल चैम्बर 1, भीकाजी कामा प्लेस दस्तावेज जमा करने की नई दिल्ली-110066 में अवस्थित शाखा कार्यालय में अथवा ई-मेल आईडी : ankur.rastogi@ अंतिम तिथि और समय omkaraarc.com/manbir.chawla@omkararac.com पर। इसके अतिरिक्त, आप ओएआरपीएल पदाधिकारियों से 8218904686 / 9968875743 पर सम्पर्क कर सकते है कोई ऋणभार सभी बोलीदाताओं को ई-नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए www.omkaraarc.com/http://omkaarc.com/auction.ph कोई अन्य प्रासंगिक सूचना अथवा www.bankeauctions.com देखने की सलाह दी जाती है। इच्छुक बोलीदाताओं को दिवाला और ऋणशोध अक्षमता संहिता 2016 की धारा 29ए का पालन करना होगा तथा उसके तहत घोषणापत्र प्रस्तूत करना होगा।

तिथि : 08-02-2024

प्राधिकृत अधिकारी, ओंकारा असेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओंकारा पीएस 04/2020-21 ट्रस्ट के ट्रस्टी की हैसियत से कार्यरत)

सार्वजनिक घोषणा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध

अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन 🕽 अवेल होल्डिंग लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ संबंधित विवरण कार्पोरेट देनदार का नाम अवेल होल्डिंग लिमिटेड कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि 17 मई, 1985 प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट रजिस्टार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली देनदार निगमित / पंजीकृत है कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान L67190DL1985PLC020953 संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा | 209, भनोट प्लाजा — II, 3, डी.बी. गुप्ता रोड, प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता नई दिल्ली-110055, भारत

प्रपत्र ए

कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध 29 जनवरी 2024 (09 फरवरी 2024 को अक्षमता आरंभन तिथि आदेश की प्रति प्राप्त हुई) ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के 27 जुलाई 2024 समापन की पूर्वानुमानित तिथि

अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में श्री **परवीन बंसल** कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल | पंजी. सं.:IBBI/IPA-001/IP-P00175/2017-2018/10344 का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और जे-347, ब्लॉक जे. सरिता विहार, नई दिल्ली-110076 ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है ईमेल:pkbansal00@gmail.com अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का. जे-347, ब्लॉक जे, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076 पत्राचार हेत् प्रयुक्त, पता और ई—मेल ईमेल :avail.holding@truproinsolvency.com

11. दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि 23 फरवरी, 2024 2. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वाराधारा 21 की लागू नहीं 4 उप-धारा (६क) के क्लॉज (ख) के तहत अमिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के लागू नहीं

रूप में कार्य करने हेत चिहिनत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)

4. (क) संबंधित प्रपन्न और (क) वेब लिंक: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads (खं) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है तदद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने दिनांक 29 जनवरी 2024 (09 फरवरी 2024 को आदेश की प्रति प्राप्त हुई) को **अवेल होल्डिंग लिमिटेड**के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का

अवेल होल्डिंग लिमिटेड के लेनदारों से एतदद्वारा अपने दावों का प्रमाण 23 फरवरी 2024 को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है ।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्टोंनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा । अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं । हस्ता /-दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंउनीय होगी। सीए परवीन बंसल अंतरिम समाधान प्रोफेशनल

एवेल होल्डिंग लिमिटेड के मामले में

पंजीकृत सं.:IBBI/IPA-001/IP-P00175/2017-18/10344| एएफए 30.10.2024 तक वैध है संचार ईमेलः avail.holding@truproinsolvency.com दिनांक: 10.02.2024 पंजीकृत ईमेल: pkbansal00@gmail.com पंजीकृत पताः जे-347, ब्लॉक जे, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076 स्थान: नई दिल्ली

न्यू लाइट एप्रैल्स लिमिटेड

जीसी-29, बेसमैन्ट, शिवाजी इन्क्लेव, राजा गार्डन, नई दिल्ली-110027 Email: newlight.apparels@gmail.com, Tel: 9810192160

एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि न्यू लाइट एप्रैल्स लिमिटेड ("कम्पनी") की प्रथम असाधारण सामान्य बैठक

(ईओजीएम) (01/2023-2024) मंगलवार, 05 मार्च को दोपहर 02:00 बजे जीसी-29, बेसमैन्ट, शिवाजी इन्क्लेव, राजा गार्डन, नई दिल्ली-110027 में ईजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसाय निष्पादन हेतु आयोजित की जायेगी। एमसीए परिपत्र दिनांक 05 मई, 2022 साथ में पठित परिपत्रों दिनांक 08 अप्रैल, 2020 एवं 05 मई , 2020 एवं सेब परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 के अनुसरण में ईओजीएम की सुचना सभी सदस्यों जिनके ई-मेल पते डिपॉटरीज/आरटीए/ कम्पनी एवं निके नाम सदस्यों की पंजिका/डिपॉटरी के रिकार्ड में 02 फरवरी, 2024 को अंकित थे, को भेज दी गई है। कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108 साथ में पठित कम्पनीज (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमन, 2014 के

नियम 20 सयम-समय पर यथासंशोधित एवं सेबी (लिस्टिंग दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन् 2015 के विनियमन 44 के अनुसरण में पूनः सूचित किया जाता है किः 1. कम्पनी अपने सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करा रही है ताकि वे ईजीएम की सुचना में वर्णित

- मदों पर इलेक्ट्रानिकली अपना वोट दे सकें।
- 2. ई-वोटिंग का समय शुक्रवार, 02 मार्च, 2024 को प्रातः 09:00 बजे प्रारम्भ होगा। ई-वोटिंग का समय रविवार, 04 मार्च, 2024 को सायं 05:00 बजे पर समाप्त प्रारम्भ होगा।
- कट-ऑफ तिथिः 27 फरवरी, 2024.
- एक व्यक्ति जिसका नाम डिपॉटरीज द्वारा बनाये गये लाभदाई स्वामी की पंजिका में कट—ऑफ तिथि को अंकित होगा केवल वही रिमोट ई-वोटिंग के साथ सामान्य बैठक में वोटिंग की सुविधा का हकदार होगा।
- एक व्यक्ति जिसने सूचना को भेजने के बाद शेयर अर्जित किये और कम्पनी को सदस्य बना हो, लेकिन कट-ऑफ तिथि से पहले. ई-वोटिंग की सविधा का लाभ उठाने एवं लॉगइन ओडी और पास वर्ड प्राप्म करने के लिए ईजीएम की सूचना में गये गये अनुदेशों का पालन कर प्राप्त कर सकता है।
- 7. कट-ऑफ तिथि को भौतिक या डिमैटरलाइज रूप में शेयर धारित कम्पनी के सदस्य ई-वोटिंग की सुविधा अथवा सामान्य बैठक में मत पत्र द्वारा वोटिंग के हकदार होंगे।
- 8. उपरोक्त तिथि एवं समय के उपरान्त ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जायेगी।
- एक सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी असाधारण सामान्य बैठक में भाग ले सकता है लेकिन बैठक में फिर से वोट देने की अनुमित नहीं दी जायेगी।
- 10. इलेक्टानिक माध्यम द्वारा वोटिंग से सम्बन्धित किसी भी प्रश्न अथवा शिकायत अथवा अक्सर पछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूज) के लिए http://www.evoting.nsdl.com के डाऊनलोड भाग पर उपलब्ध ई-वोटिंग नियमावली का संदर्भ ले सकते है अथवा सम्पर्क का सकते हैं:-
 - क) श्री पुनीत मित्तल, बीटेल हाऊस, तीसरी मंजिल, 99 मदनगीर, लाकल शापिंग सेंटर के पीछे, हरसुखदास मंदिर के समीप, नई दिल्ली-110062; Email: beetal@beetalfinancial.com
 - ख) श्री संदीप मक्कड़, (प्रबन्ध निर्देशक), न्यू लाइट एप्रैल्स लिमिटेड, जीसी-29, बेसमैन्ट, शिवाजी इन्क्लेव राजा गार्डन, नई दिल्ली-110027 ; Email: newlight.apparels@gmail.com , Tel: 9810192160.
- 11. कम्पनी ईओजीएम का आयोजन भौतिक रूप में करा रही है, लेकिन उपरोक्त प्रावधानों एवं परिपत्रों के अनुपालन में प्रथम ईओजीएम (01/2023-2024) की सूचना की इलेक्ट्रानिक प्रत्तियाँ कम्पनी के सभी सदस्यों जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉटरीज भागीदारों/रजिस्ट्रार एण्ड शेयर हस्तांतरण एजेन्ट ("आरटीए") के पास पंजीकृत को भेज दी गई हैं।
- 12. ईओजीएम की सूचना साथ में http://www.evoting.nsdl.com के डाऊनलोड भाग एवं कम्पनी की वेबसाइट https://newlightapparels.com/agm-1 एवं स्टॉक एक्सचेन्ज जहाँ पर कम्पनी के शेयर्स सुचीबद्व हैं i.e. (बीएसई लिमिटेड) की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।
- 13. ईमेल पते पंजीकरण/अपडेटिंग का तरीकाः
 - क) जो सदस्य भौतिक माध्यम में इक्वीटी शेयर्स धारण करते हो और जिन्होंने अपने ईमेल पते, पैन एवं बैकिंग विवरण कम्पनी/आरटीए के पास पंजीकृत/अपडेट नहीं कराये हैं उनसे अनुरोध है के वे लिखित में उपरोक्त जानकारी कम्पनी को newlight.apparels@gmail.com पर भेजें साथ में शेयधारक के नाम एवं पते, बैंक विवरण का प्रमाण और स्व-अभिप्रमाणित पैन का प्रतिलिपि/कोई अन्य पते का पहचान प्रमाण को वर्णित कर अनुरोध पत्र के साथ प्रस्तुत करें।
 - जो सदस्य डिमैटरलाइज माध्यम में शेयर्स धारण करते हो और जिन्होंने अपने ईमेल पते एवं बैकिंग विवरण डिपाटरीज भागीदारों के पास पंजीकृत/अपडेट नहीं कराये हैं उनसे अनुरोध है के वे प्रसांगिक डिपाटरीज भागीदारों के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट करा लें।
- 14. ई-वोटिंग द्वारा वोट देने का तरीकाः कम्पनी अपने सभी शेयरधारकों को ईजीएम की सूचना में बताये गये व्यवसायों पर उनके वोट देने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करायेगी। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के लिए लॉगइन साख शेयरधारको को ईमेल द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 एवं सेबी (लिस्टिंग दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन 2015 के विनियमन 42 के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों की पंजिका एवं शेयर हस्तांतरण किताबें मंगलवार, 27 फरवरी, 2024 से मंगलवार, 05 मार्च, 2024 (दोनों दिवस शमिल कर) 05.03.2024 को होने वाली ईओजीएम के उदेश्य हेतू बेद रहेंगी। (रिकार्ड तिथि : 02 फरवरी, 2024)।

कृते न्यू लाइट एप्रैल्स लिमिटेड हस्ता०/-संदीप मक्कड (प्रबन्ध निर्देशक)

(Rs. in crore, except per share data)

तिथि: 09.02.2024 स्थानः नई दिल्ली

कार्यालय का पताः जीसी-29, बेसमैन्ट, शिवाजी इन्क्लेव, राजा गार्डन, नई दिल्ली-110027



SHALIMAR PAINTS LIMITED

Regd. Office: Stainless Centre, 4th Floor, Plot No. 50, Sector 32 Gurugram -122001, Haryana

Website: www.shalimarpaints.com, Email: askus@shalimarpaints.com, Ph No.: +91 124 4616600 REGULATION 47 (1)(b) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31.12.2023

000.00	e l		Standalone					Consolidated					
SI. No.	Particulars		Quarter Ende	d	Nine Months Ended		Year Ended	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
	ranculars	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	145.88	119.14	129.09	390.65	349.65	485.55	145.88	119.14	129.09	390.65	349.65	485.55
2	EBITDA#	(5.33)	(17.82)	0.43	(26,16)	(4.95)	(7.51)	(5.36)	(17.82)	0.43	(26.20)	(5.06)	(7.54)
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(11.51)	(25.61)	(6.20)	(47.38)	(26.50)	(36.10)	(11.54)	(25.62)	(6.20)	(47.43)	(26.62)	(36.15)
4	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(11.51)	(25.61)	(6.20)	(47.38)	(26.50)	(36.10)	(11.54)	(25.62)	(6.20)	(47.43)	(26.62)	(36.15)
5	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(11.51)	(25.61)	(6.20)	(47.38)	(26.50)	(36.10)	(11.54)	(25.62)	(6.20)	(47.43)	(26.62)	(36.15)
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profits /(Loss) for the period (after tax)	1000000000	-7000-0-000	0.100000000		60000000000000000000000000000000000000	000000000		ANGEROUS	77.000	200000000	17.1-2-12-12-1	**********
100	and other Comprehensive Income (after tax)]	(11.25)	(25.55)	(5.93)	(47.50)	(26.22)	(35.65)	(11.28)	(25.56)	(5.93)	(47.55)	(26.34)	(35.70)
7	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 2/- each)	16.74	14.44	14.44	16.74	14.44	14.44	16.74	14.44	14.44	16.74	14.44	14.44
8	Other Equity	1.50-1.5	5.001.000			VXX.1180-0	322.19		2100.20		400		338.11
9	Earnings Per Share (Face Value of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations)-						5000000000						1869/00/100
	Basic	(1.40)	(3.55)	(0.86)	(6.27)	(3.67)	(5.00)	(1.40)	(3.55)	(0.86)	(6.28)	(3.69)	(5.01)
	Diluted*	(1.40)	(3.55)	(0.86)	(6.27)	(3.67)	(5.00)	(1.40)	(3.55)	(0.86)	(6.28)	(3.69)	(5.01)

#EBITDA= Earning before Interest, Tax and Depreciation & Amortization * Anti-dilutive

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2023, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Nine Months Financial Results for the Quarter/ nine months ended December 31, 2023, is available on the website of Stock Exchanges at (www.bseindia.com) as well as on the Company's Website at (www.shalimarpaints.com). 2. The above unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on February 09, 2024. Limited Review of these results in accordance with Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 has been carried out by the Statutory Auditors.

For and on behalf of the Board Ashok Kumar Gupta Managing Director DIN: 01722395

Place: Gurugram, Date: 09.02.2024